

Devyani International Limited



Corporate Office: Plot No.18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana (India) • Tel.: +91-124-4566300, 4786000 E-mail: devyani@dil-rjcorp.com • Website: www.dil-rjcorp.com; CIN: L15135DL1991PLC046758

May 15, 2024

To,

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Limited
Exchange Plaza, Block G, C/1, Bandra Kurla	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai – 400 001
Email: cmlist@nse.co.in	Email: corp.relations@bseindia.com
Symbol: DEVYANI	Security Code: 543330

Sub: Publication of extracts of Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2024

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed extracts of Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2024 as published in the Newspapers.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully, for **Devyani International Limited**

Pankaj Virmani Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above













Registered Office: Uniworth House, 3A Gurusaday Road, Kolkata - 700019. CIN: L55101WB1999PLC090672. Tel. No. (91 33) 2283 7964 Email: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in Statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024

		Standalone Consolidated		Standalone		Consolidated					
		1	Quarter Ended Quarter Ended		Year Ended		Year Ended				
Sr. No.	Particulars	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Revenue from Operations	9,108	10,949	8,751	9,619	11,598	8,751	39,310	37,497	40,470	37,497
2	Net Profit for the period (before exceptional items, tax and share of profit/ (loss) in Joint venture)	221	1,446	1,149	386	1,557	1,183	3,157	5,464	3,431	5,498
3	Net Profit for the period (before tax and share of profit/ (loss) in Joint venture)	221	1,446	1,988	386	1,557	2,022	3,157	6,223	3,431	6,337
4	Net Profit for the period (before tax)	221	1,446	1,988	388	1,557	2,027	3,157	6,223	3,526	6,344
5	Net Profit for the period	164	1,347	5,492	338	1,417	5,531	3,666	9,558	3,001	9,679
6	Total Comprehensive Income for the period	151	1,345	5,491	312	1,453	5,543	2,634	9,565	2,995	9,699
7	Net Profit for the period attributable to owners of the company	164	1,347	5,492	310	1,383	5,531	2,666	9,558	2,939	9,679
8	Total Comprehensive Income for the period attributable to owners of the company	151	1,345	5,491	284	1,419	5,543	2,634	9,565	2,933	9,699
9	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10 per share)	4,810	4,810	4,696	4,810	4,810	4,696	4,810	4,696	4,810	4,696
10	Earnings per equity share (of ₹ 10/- each)* (a) Basic (b) Diluted	0.34 0.33	2.81 2.73	11.69 11.63	0.64 0.63	2.88 2.80	11.78 11.71	5.58 5.41	20.35 20.24	6.15 5.96	20.61 20.50

Note:

The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to make the same available on the websites of the Stock Exchanges on which the Shares of the Company are listed, namely, www.bse the said results are also available on the Company's website www.speciality.co.in. For and on behalf of the Board

BGCL at Bhusaula SS

THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION, LIMITED

31/03/2024

(Unaudited)

7,108.55

7,404.98

6,583.84

(10.41)

6,573.43

1,396.27

18,036.38

3,637.20

19,432.65

34,872.74

9.43

(0.01)

9.42

31/03/2024

416,169.51

73.329.67

73,329.67

52,650.64

(10.41)

51,293.51

1,396.27

9542.43

(0.01)

37.52

37.51

201.64

The above is an extract of the detailed format for the quarter and year ended audited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the quarter and year ended audited financial results are available on the website of stock exchanges www.

The audited Standalone and consolidated financial results of the Corporation have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed unde

The above audited Standalone and Consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 13 May 2024 and approved by the Board of

The Board of Directors in their meeting held on 13 May 2024 has recommended a dividend of 60% (Rs.1.20/- per share of face value of Rs.2 each) for the financial year ended 3:

The figures for the quarter ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto third quarter of the respective financial years. Also the figures upto the end of the third quarter were only reviewed and not subjected to audit.

Section 133 of Companies Act, 2013 ('the Act') read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 and 52 of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI')

466,216.89

665,131.01

213.398.61

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024

31/12/2023

(Unaudited)

5,978.07

(3,124.75)

(3,124.75)

(3.124.75)

(19.66)

(3,144.41)

(3,290.81)

1,396.27

10,680.61

3,637.20

12,076.88

39,958.66

(4.48)

(0.03)

(4.51)

Quarter Ended

31/12/2023

433.672.77

93.751.31

(290.00

93,461.31

73,135.39

(19.66)

(19.66

71,109.19

1,396.27

9542.43

(0.03)

65.45

65.42

200.48

441,297.99

613,720.96

185.615.12

Extract of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and year ended 31 March 2024

RIYASAT

2 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th, May 2024.

GLOBAL GRILL

Place: Mumbai Date: 14th May, 2024 MAINLAND CHINA

Chairman & Managing Director (DIN: 00200443) EPISODE Sweet Bengal

Anjanmoy Chatterjee

For Speciality Restaurants Limited

DILIP BUILDCON LIMITED

DILIP BUILDCON LIMITED

Oh! Calcutita

Registered Office : Plot No. 5, Inside Govind Naravan Singh Gate. Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462016, Madhya Pradesh

(CIN: L45201MP2006PLC018689)

Corrigendum

In reference to the extract of audited financial results for the quarter and full-year ended 31st March, 2024 of Dilip Buildcon Limited published on 11.05.2024, the heading of the first line is to be read as "Statement of Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31 March 2024".

> For and on behalf of the Board of Directors of **Dilip Buildcon Limited**

Place: Bhopal

POST BOX NO. 10077 TEL. NOS.: 022-2219 7101 FAX :0091-22- 2207 1612 / 6772

Email: investorservices@bbtcl.com Website: www.bbtcl.com

3

11

12

13

2

9 Reserves

11 Net worth

Total revenue from operations (net)

Profit/(loss) before tax from continuing operations

a) (Loss)/profit before tax from discontinued operations

(Loss)/profit after tax from discontinued operations

Paid-up equity share capital (face value of ₹ 2 each)

Total comprehensive (loss)/ income for the period / year

Basic and Diluted earnings / (losses) per equity share (of ₹2 each)

b) (Losses)/earnings per share from discontinued operations (in ₹)

Profit before exceptional items and tax from continuing operations

c) (Losses)/earnings per share from continuing and discontinued operations (in \P)

Particulars

Basic and Diluted earnings / (losses) per equity share (of ₹ 2 each) [not annualised

c) Earnings/ (losses) per share from continuing and discontinued operations (in ₹)

bseindia.com and www.nseindia.com and on the Corporation's website www.bbtcl.com

a) (Losses)/ earnings per share from discontinued operations (in $\stackrel{\blacktriangleleft}{=}$)

b) Earnings/(losses) per share from continuing operations (in $\stackrel{\blacktriangleleft}{\cdot}$)

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Profit/(loss) after tax from continuing operation

c) Tax expense of discontinued operations

Net (loss)/profit for the period / year

Reserves (excluding revaluation reserve)

Paid up debt capital/ Outstanding debt

[not annualised except for the year end]:

a) Losses per share from continuing operations (in ₹)

Securities premium account

Total income from operations

Discontinued operations

10 Securities premium account

12 Paid up debt capital / outstanding debt

except for the year end]

14 Capital redemption reserve

Directors on 13 May 2024.

Place : Mumbai

Date: 13 May 2024

15 Debenture redemption reserve

4 Profit/(loss) before tax from continuing operations

c) Tax expense of discontinued operations

Profit / (loss) after tax from continuing operations

a) (Loss)/profit before tax from discontinued operations

(Loss)/ profit after tax from discontinued operations

8 Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each)

Total comprehensive income / (loss) for the period / year

b) Exceptional gain from sale of discontinued operations (net)

Exceptional items loss

Dilip Suryavanshi **Chairman & Managing Director** Date: 14 May, 2024 DIN - 00039944

Particulars

Profit/(loss) before exceptional items and tax from continuing operations

BIHAR GRID COMPANY LIMITED
(A Joint Venture of BSP(H)CL & POWERGRID) 2nd FLOOR, ALANKAR PLACE, BORING ROAD PATNA - 800 001 CIN: U40100BR2013PLC019722

CAFÉ MEZZUNA

HAKA

NOTICE INVITING TENDER Dated: 15.05.2024 NIT Ref. No.: JV/PT/BG/C&M/NIT-01/2024-25 (Single Stage Two Envelope Bidding Procedure) (Domestic Competitive Bidding; Funding; Domestic) BIHAR GRID COMPANY LTD. invites sealed bids for the following works from

9				
PKG		Estimated Cost (in Rs.) / Completion period /	submission	
	work	Tender Document Cost / EMD (In Rupees)	Date & Time of Bid opening	
А	Package - Construction of Head Quarter Building of	Rs. 496.13 Lakh (09) Nine Months/	Up to 20.06.2024 at 11:00 Hrs.	

On 20.06.2024 at 11:30 Hrs Rs. 993000/-Extended Sale period of Tender Document will commence: from 15.05.2024 to 13.06.2024 on all working days. Purchase of Tender Document : Fron Patna at office address mentioned above. Cost of Tender Documents shall be paid through Demand Draft only in favour of "Bihar Grid Company Ltd

Rs. 12500/-

The detailed Qualifying Requirement (QR) are given in the bidding document o the respective packages. For submission of the bid, bidders will be required to purchase bid document duly authenticated by the executive issuing the documents. This notice will also be available on BGCL website www.bihargrid.co.in. For detailed NIT and bid documents please contact DGM C&M), BGCL at address given above or on Telephone No. 0612-2530477.

31/03/2023

(Unaudited)

6,382.22

2,469.56

(18,622,27)

(16,152.71)

(16,152,71)

84.54

24,372.51

(850.00)

23,607.05

7,454.34

7,654.58

1,396.27

19,189.61

3,637.20

20,585.88

95,200.89

(23.14)

33.81

10.67

31/03/2023

410.815.96

59.307.46

(186,565.84)

(127,258.38)

(156,984.06)

84.54

24,372.51

(850.00)

23,607.05

1,396.27

9542.43

401.835.49

581,295.82

652.183.82

33.81

230.44

201.64

(126,846.76)

31/03/2024 31/03/2023

(Audited)

24,458.75

(4,301.80

(18,622.27)

(22,924.07

(22,924.07

280.16

24,372.51

(850.00)

878.60

301.6

1,396.27

19,189.61

3,637.20

20,585.88

95,200.89

(32.82)

34.08

1.26

1.662.291.68

153,255,04

(149,005.84

(77,172.17

280.16

24,372.51

(850.00

23,802.67

1,396.27

9542.43

401.835.49

581,295.82

652.183.82

34.09

(274.17

(240.08)

201.64

(30,599.01

23,802.67

(Audited)

26,131.66

(364.69)

(223.28)

(587.97)

(315.96)

1,396.27

18,036.38

3,637.20

19,432.65

34,872.74

(0.52)

(0.32)

(0.84)

1,710,897.15

263,599,36

(10,553.83)

252,905.53

173,940.22

(223.28)

(223.28)

170,490.87

1,396.27

466,216.89

665,131.01

213.398.61

9542.43

(0.32)

98.35

98.03

201.64

On behalf of the Board of

Ness Wadia

Managing Director

The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited

(₹ in lakhs unless otherwise stated

Year Ended

31/03/2024 31/03/2023



Regd. Office: 108, Mount Poonamallee Ro Porur. Chennai - 600 116

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Tuesday, the 21st May 2024, to consider and take on record, inter-alia Audited Financial Statements of the Company for the quarter and Year ender 31st March 2024

for W.S. Industries (India Limited 15.05.2024 **Company Secretary**



RESONANCE SPECIALTIES LIMITED

(CIN No. L25209MH1989PLC051993) REGD. OFFICE: 54-D, Kandivali Industrial Estate, Charkop, Kandivali (West) MUMBAI 400067 resonancesl.com TEL: 022 6857 2827, GST No-27AAACA9590Q1ZW, Email: info@resonancesl.com.

			Quarter Ended			Year Ended
Sr.	Particulars			31st March,		
No.	Particulars	2024	2023	2023	2024	2023
		Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	1,635.66	1,534.12	1,837.75	5,530.09	5,881.46
2	Net Profit / (Loss) for the period					
	(Before Tax, Exceptional and /or Extra ordinary items)	85.16	107.96	155.46	396.35	685.14
3	Net Profit / (Loss) for the period					
	(before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items)	85.16	107.96	155.46	396.35	685.14
4	Net Profit / (Loss) for the period					
	(after Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items)	85.16	96.11	155.46	396.35	685.14
5	Compenhsive income for the period					
	(Comprising profit & loss) for the period(after tax)					
	and other comprehensive income (after tax)	67.56	95.52	121.39	295.71	504.42
6	Equity Share Capital	1,154.40	1,154.40	1,154.40	1,154.40	1,154.40
7	Reserves (Excluding Revaluation reserve as shown in the					
	Audited Balance sheet of the previous year)				4,228.57	3,851.65
8	Earning per Shares (of Rs 10/-each					
	(for continuing and discontinued operations)- (basic & Diluted)	0.59	0.83	1.05	2.56	4.37

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

- . The financial results of the Company have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules' 2015 (IND-AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable
- 2. The above results have been reviewed by the audit committee and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on 14th May 2024.
- In accordance with Ind AS-108 "Operating Segments", the company has only one reportable primary business segment i.e. "Chemica Manufacturing". However, the company has secondary geographical segment which is disclosed in the financial statement as per Ind

Information about secondary geographical segments as per financial statements

		(ns. III Lakiis
Particulars	April to March 24	April to March 23
Segment Revenue		
- India	2,433.21	2,614.70
- Outside India	3,096.88	3,266.76
Total	5,530.09	5,881.46

The segment asset and segment capital expenditure attributable to the segment "Outside India" is less than 10% of the respective total assets and total capital expenditure and therefore not disclosed separately.

- *The figures of the last quarter for the current year and for the previous year are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended March 31, and unaudited year-to-date figures up to the third guarter ended December 31, which were subjected to limited review.
- The figures for the previous financial period have been regrouped/rearranged wherever necessary.

By the order of the Board For RESONANCE SPECIALTIES LIMITTED

Place: Mumbai Dated: 14th May 2024

Charchit Jain Whole Time Director DIN: 09344495

DEVYANI

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L15135DL1991PLC046758 Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Corporate office: Plot No-18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana Tel: +91-124-4566300, E-mail: companysecretary@dil-rjcorp.com, Website: www.dil-rjcorp.com



Revenue **INR 10,471** YOY Growth 39%

Net



(₹ in million, except per share data)

Statement of consolidated financial results for the quarter and financial year ended on 31 March 2024 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]



ended on ended on **Particulars** 31 March 2023 (Audited) (See Note 4) Total revenue from operations 35.563.17 7.549.77 10,470.78 43.88 1.073.71 Profit before exceptional items and tax 412.32 (Loss)/profit before tax (379.86)36.76 412.32 Net (Loss)/profit Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) (337.64)312.15 598.76 Equity Share Capital (face value of INR.1/- each) 1,205.86 1,205.86 1,204.96 Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet 9.351.77 Earnings Per Share (of INR. 1/- each) (a) Basic (0.06)0.39 0.50 (b) Diluted (0.06)0.39 0.50



See accompanying notes Notes: The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Company and Camas, an affiliate of Temasek, invested AED 150.47 million (~ INR 3,407.85) and AED 145.53 million (~ INR 3,295.96) respectively, in Devyani International DMCC, Dubài ('DID') under the Investment Agreement dated 18 December 2023 in ratio of 51:49%. On 17 January 2024, DID acquired Restaurants Development Co. Ltd. ("RD"), operating chain of 283 KFC rants in Thailand, by way of acquiring controlling interest in RD and its related entities for the consideration of

THB 4,681.99 million (~ INR 10,913.28 million) including payment of erstwhile shareholder's loan, pursuant to the Share Purchase Agreement dated 18 December 2023. Acquisition of the business is accounted for using the acquisition method of accounting as per Ind AS 103 "Business

The full format of the quarterly and year ended financial results are available on the websites of the Stock

Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.dil-rjcorp.com).

Combinations'. Further, the Company has accounted for such acquisition based on provisional fair values of assets and liabilities acquired determined by the management, resulting into recognition of goodwill of INR 3,782.43 millions. The fair valuation reports are in process and as allowed under Ind AS 103, the measurement period is open for a period of maximum of one year from the acquisition date. During the quarter ended 31 March 2024 and year ended 31 March 2024, due to significant devaluation of Nigerian

currency, the Nigerian subsidiary of the Group (the Company and its subsidiaries collectively referred to as the 'Group') has recognized INR 423.74 million and INR 897.07 million devaluation impact on account of translation loss of USD denominated liabilities in Nigerian subsidiary's financial information as at 31 March 2024 and year ended 31 March 2024 respectively. Considering the significance of the amount involved, the said exchange translation loss has been presented as an ""exceptional items"" in consolidated financial results of the Group. Consequently, owing to the significant currency devaluation, the investments (including loans) made by the Company in Nigerian subsidiary through RV Enterprizes Pte. Ltd., has been impaired during the guarter ended 31

March 2024 amounting to INR 1,160.09 million and has been presented as an ""exceptional items"" in standalone financial results of the Company.

These standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended on 31 March 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Devyani International Limited ("DIL" or "the Company") at their respective meetings held on 14 May 2024. The Statutory Auditors have audited the annual financial results. The figures for the quarter ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in recpective of full financial years and the published year to date figures up to the third quarter of the relevant financial vear, which were subject to limited review.

5. The key standalone financial information of the Company is given below



Year to date 31 March 2024 Three months ended on Three months ended on **Particulars** 31 March 2023 (See Note 4) (See Note 4) Total revenue from operations 7.515.84 31.162.22 7,000.91 Profit before exceptional items and tax 253.71 1,235.19 372.76 372.76 (Loss)/profit before tax (906.38)75.10 Net (Loss)/profit for the period (1,050.38)(63.37)572.85 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (81.67)569.04



Devyani International Limited Manish Dawar Whole time Director & CFO

(₹ in million)




Place : Gurugram

Dated: 14 May 2024

For and on behalf of Board of Directors of

DIN: 00319476



कृपया 10/05/2023 को बिजनेस स्टैंडर्ज (अंग्रेजी + हिंदी) में प्रविदर, प्रशांत कलस्याना के विकद्ध संपत्ति के पते खसरा सं. 201के, युकान एमपीएल सं. 651/खसरा सं. 201के पर. विष्णुपुरम कॉलोनी, श्राम लखवाया रस्टूलपुर, परगना और तहसील, रोहता रोड, जिला मेरठ – 250002 मेरठ जतर प्रदेश 250002 के विरुद्ध कब्जा सूचना विश्लापन देखे। ध्यान दें कि इस खाते के लिए 10/05/2023 की कब्जा सूचना को रह कर दिया गया है। शेष मामले में कोई बदलाव नहीं

दिनांक: 15.05.2024 स्थान : गेरठ

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी होग फर्स्ट काइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

के हाग आम बनता को सुचित किया बाता है कि मेससे चीड़ान त्वचेत प्राहवेट तिमिटेट ने फेडवैंच फाइनेशियल सर्विसेट विमेटेल में वहण के शिए आखेदन किया है. श्री इंदर मोहन पत्र १ शपाल के स्वर्शित्य बाती संपत्ति के किन्द्र, विसवा पत्ति हैं विस्ति पाग की 267 के आपे दिस्से की क्रांत के ऑपफार के बिन मिर्दे मेकिन क्षेत्रफल १९४ ।। वर्त गढ देशवल वाग न किन्ती - 1400ार में विश्वा है इंडियन ओक्सीज पैक एसेट गुड़ रिक्यरी मैनेक्सेट द्वारा अपने अधिकृत कार्यात्तव सुबी कंचन गुता के माध्यम से बी इंस मोहन पुत्र बी यसपात के पक्ष में निष्यदिश बिजी प्रयानपत्र विनोध ००/१३/२००२ (यस्ताचेज संद्राया २३६) माना अस्तरपात कार्य २००० (१८००) पुरस्का सीठमा । स्वाह मोरामा १४५५), पृष्ट मोराम १५००) १००४मा ५१ १९ (बेस्टी को भी द्वा पर कार्य अध्यक्ति है कार्य र दिसी (प्रकारण किस्स पहिला के भीता विशेष्ट लिखित आधीरण के साथ अधीतरमाक्षी से संपर्क कर संकल है अन्यवर यह मार गा कि इस क्षेत्रक पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्या को गाट (एडबॉकेट 72:65, गर्नी च. 2, कृष्णा स्था सम्बद्धान्य प्रत्यक्षेत्र, तर्वे विक्की, 10002 (07982557892) (varauptogran)) gmail.co

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली में, प्रधान पीठ के समझ सीपी (सीएए) नंबर-26 / पीबी / 2024 के साथ संबंधित कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या 116 / 230-232 / पीबी / 2021 टीसीआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड .आवेदक-1 / ट्रांसफरर कंपनी नंबर -1 त्रिदेव एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेस ...आवेदक-2 / ट्रांसफरर कंपनी नंबर -- 2

और ट्राइएज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ..आवेदक-३ / हस्तांतरिती कंपनी

याविका की सुनवाई की सूचना यान वें कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("साचिका", की धारा 230 से 232 के तहत टीसीआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफरर नंबर-1 कंपनी) त्रिदेव एडवाइजारी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेव (ट्रांसफरर नंबर –2 कंपनी) के विलय की योजना को मंजूरी देने के लिए कंपनी याधिका ट्राइएव इबस्टीज प्राइवेट लिमिटेब (हस्तातरिती कंपनी) पाषिकाकर्ता कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारको और लेनदारों हारा 18.04.2024 की प्रस्तत की गई भी और जिसे माननीय राष्ट्री विधि अधिकरण, प्रधान पीठ द्वारा 18.04.2024 स्वीकार किया गया था। उक्त गायिका अब माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण की प्रधान पीठ के समझ 25.07.2024 को अंतिम सुनवाई के लिए

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने वे इच्छक किसी भी व्यक्ति को पाचिकाकर्ता वे वकील को उसके नाम और पते के साथ उसके इरादे का एक नोटिस भेजना थाहिए, जो उसके या उसके वकील द्वारा हस्ताहारित हो एवं वाचिका व सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से दो दिन पहले गविकाकर्ता के वकील तक पहुंच जाए । जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है. विरोध के प्राधार या उसके हलफनामें की एक प्रति इस तरह के नोटिस के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति अपोहस्ताहारी हारा किसी की व्यक्ति को उसी के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रस्तृत की जाएगी।

हस्ता / -दिनांक 14 मई 2024 ऋषम जैन याचिकाकर्ता के वकील पताः मकान नंबर –2511, स्ट्रीट नंबर –12, विद्यारी जॉलोनी, दिल्ली–110032 मोबाई लः 9873431798

सार्वजनिक सूचना जनसम्बारण को सूचना दी जाती है कि मैं, बीमते चूना प्रोतर पवि सुमीत प्रोवर निवासी मकरन ने 508 0 बैंक कोजोनी रांसी तारसीत जिला दिसार तरिका अपने बाई अंकुर अध्यात पुत्र नाजेन्द्र कुमार अध्या से जसकी चत्रत आदवों के कारण सभी तथा सबेवों को समाप्त कर ककी हैं। मैंने अपने कवित मा को जगनी सारी चल एवं अवल सम्पनियां से में बेलाइल कर दिया है। भी अंकृर अध्याज के साम लेगदेन बनने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा अपनी जीवित एवं जिम्मेदारी पर करेंगे तथा भी अंकृत अष्टवाल तथ उसकी पत्नी हों. शीराजी रूनवाल द्वारा किए ग किन्हें भी कार्य, किलेश तथा सीदा के लिए मैं जिल्ले नारी रहनी। श्रीनदी पूजा डोवर

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि प्लॉर नं 2181पी, सेक्टर-46, गुडगांव हरियाणा में स्थित फ्रीहोल्ड भूमि व बिल्डिंग के सभी माग व पार्सल, सीमाए उत्तर : रोड, दक्षिण : प्लाट नं. 2238, पूर्व रोड, पश्चिम : प्लॉट नं, 2182 के संबंध में मीनाक्षी मेहता के नाम पर मूल आवंटन पत्र सं. 1831 दिनांक 08.05 1996 और मूल कन्वेयस डीड नं. 6970 दिनांक : 29 06.2004 और रमन मिलाल के नाम पर मूल बिक्री डीड सं. 17569 दिनांक 02:02. 2004 और मूल पुन आवंटन पत्र सं 12048 दिनांक 08.08.2005 सेक्टर 15 मार्किट में कहीं गुम हो गए हैं। जिस व्यक्ति को मिले हों कृपया पूजा गाँयल पत्नी विकास गांयल या श्री विकास गोयल पुत्र हरि किशन गोयल निवासी म नं. 563ए, सेक्टर 15 माग-1, गुडगांव-122001 को वापस कर दें या कॉल करें। मोबाइल: 9811450001

Date: 14-05-2024

Place: Mumbai

सार्वजनिक सूचना – फॉर्म जीत 6 राष्ट्रीय कंपनी कानन न्यायाधिकरण. प्राचान पीठ, नई दिल्ली के शमक ग्लो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान में बदलाल करें। (कंपनी अधिनियम, 1966 / 2013 के

तहत निगमित कंपनी) पंजीकृत कार्यालयः 50, गासीगढ, सुखदेव विहार, नई दिल्ली—110065 2022 की याचिका संख्या 73 सिद्धांत शर्मा एवं अन्य ...याचिकाकतां

वानिका का विश्वापन इसके द्वारा नोटिस निया जाता है कि नई किली में हिम्यूनन द्वारा उपरोक्त नामित कमन्द्रे को संग्र करने के १९ एक माधिका अमेल 2022 में हिस्सूनल के सकक्ष गर की गई थी और हिस्सूनल ने मिनाक 06:06:2020 आवेश हाल नोटिल प्रकाशित करने का निर्वेश दिया या कि उक्त प्राणिका है व जुलाई 2004 को दिश्यान के समझ सुनवाई का निर्देश दिशा गया। कोई भी ग्रीमदानकों या सन्दर्श की जो उत्त ग्रीडिक का कार्देश देने का राम्बर्ग या धियो करना माहता है, उसे साथिकाकर्वा या उसके ग्रीदिनिधे को अपने इंटर का हत्ताधार्थेत नोटिस गेजना पाहिए। उसे या उसके प्रतिनिधि को अपने नाम और पते के लाथ ताकि याथिकाकता या एसको प्रतिनिधि पाषिका को सुनवाई के लिए निर्धारित दिव्य से पांच दिन पहले पहुंच सकें ए व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा स जपस्थित हो सर्व । वाधिका की प्रति क्योहस्ताक्ष्मी द्वारा किसी मी लेनदार क अंतदायी को निवारित शुरूक के मुगताम पर प्रस्तुत की जाएगी। व्यधिका के विशेष में तुमताम किए जाने बाले किसी मी हरूकानाम को ट्रिब्युगल में बायर किया जाना फाडिए और सुनवाई के लिए किसीरेत सिधि से कम से कम पांच दिन पहले गारिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को एक प्रति दी जानी ए। वोगेश जागिया, अखिवका 110—वो, यूनरी गीजेल हुगायुपुर सफदरजंग एन्कनेय नई दिल्ली—110029

ईमेल: office jagia@gmail.com याचिकाकर्ता के लिए प्रतिनिधि

FORM-G (Extended INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR VIDHATA METAL PRIVATE LIMITED OPERATING IN METAL INDUSTRY AT WADA (MAHARASHTRA)

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) **PARTICULARS**

1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CINFLEP No.	VIDHATA METAL PRIVATE LIMITED CIN U2/310DL2008PTC175013
2	Address of the registered office	ROOM NO. 2, 2ND FLOOR, HOUSE NO. 280 POCKET-7, SECTOR-24, ROHINI, North West, DELHI, Delhi, India, 110085
3.	URL of website	+
4	Details of place where majority of fixed assets are located	Wada Manohar road, Village Varle, Taluka- Wada, District Palgarh, Maharashtra
5.	Installed capacity of main products/ services	NA.
6	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Sales and services value: Rs. 75,96,63,059 As per audited Financials for FY 2019-2020
7.	Number of employees/ workmen	3
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	Send an ensal at cirp.vidhatametal@dmax.in
9	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at :	Send an email at crp.vidhatametal@dimax.in
10.	Last date for receipt of expression of interest	20-05-2024°
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	2545-2024°
12	Last date for submission of objections to provisional list	30-05-2024*
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	05-06-2024*
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	30-05-2024*
44	Last date for submission of resolution plans	01-07-2024*
75.	The state of the s	

Companies, **Insight Out**



Companies, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



SHRIRMM HOUSING FINANCE श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मुख्य कार्यालय :लेवल 3, वोखार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग, सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुलां कॉम्पलेवस, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : http://www.shriramhousing.in पंजीकृत कार्यालव : कार्यालय मं. 123, अंगणा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-६०० ००1 शास्त्रा कार्यालय : प्लॉट ने. 245 एवं 246, दूसरी मंजिल, ओमकारम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आग्रपाली मार्ग,

वैज्ञाली नगर, जवपुर, राजस्थान 302021 [नियम ८(६) का प्रावधान देखें] अचल सम्पतियों की बिद्रती हेतु विद्रतय सचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतू ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा श्रीराम डाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से श्रीसम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसली के लिए "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 19.06.2024 की 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदार्से/सहकर्जदारों/जमानति यों/बंधककर्ताओं के नाम	13(2) मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मृत्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	THE PARTY OF THE P	मालामा की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरोक्षण की तिथि
श्रीमती लीला नंदवाना पत्नी दीपक नंदवाना पुत्र मोहन लाल नंदवाना, प्रता: - प्लॉट नंदवाना, पती: - प्लॉट नंदवाना, पती: - प्लॉट नंबर एस-2, दूसरी मंजिल, श्री श्याम रेजीडंसी, लक्ष्मी नगर हरनाथपुर, झोटवाड़ा जयपुर, राजस्थान - 302012. इसके अलावा- 183-ए, जैन मंदिर के पीछे, आरके. पुरम, कोटा, राजस्थान-324005 ऋण संख्या- SBTHJIPR0002372 और STUHJIPR0002373	13-02-2024 ऋण खाता सं. SBTHJIPR000 2372 में रु. 2,79,728/- (रुपये दो लाख उन्यासी हजार सात सौ अट्ठाईस मात्र) (खातों में कुल) रु. 21,22,291/- (रुपये इक्कीस लाख बाईस हजार दो सौ इक्यानबे मात्र) तिथि 07.02.2024 तक	संपत्ति प्लॉट नंबर- 146 का समस्त भाग, पलैट नंबर एस-2, दूसरी मंजिल, श्री स्थाम रेजीडेंसी, लक्ष्मी नगर हरनाथपुरा, ज्ञोटवाड़ा जयपुर राजस्थान-302012, माप:- 750 वर्ग फुट (निर्मित क्षेत्र) सीमाएः पूर्वः प्लॉट नंबर-144, पश्चिमः प्लॉट नंबर- 145 और प्लॉट नंबर- 145-ए उत्तरः रोड 30 फीट,	रु. 10,000/- तथा इसके गुणकों में जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)	इंएमडी नीचे वर्णित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी इारा जमा की जानी है : बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा : बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई बैंक खाता सं. : चालू खाता सं. 911020045677633 आईएफएससी कोड : UTIB0000230	19 जून, 2024 समय 11:00 बजे पूर्वा, मे 1.00 बजे अप.	कस्टमर केथर नं. 022-40081572 गजेश कुमार चौधरी 9460117810 हितेश सोनी +91- 9828230007 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 07.06.2024
कब्जा करने की तिथि एवं कब्जे का प्रकार 03 मई, 2024 भौतिक कब्जा ज्ञात ऋषा भार ज्ञात नहीं	देय तथा यहां उल्लिखित आगे का ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागतें आदि	डिल्लिखत आगे का अनितम ति व्याज और 18.06.20 आकस्मिक व्यय, समय 10.00	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 18.06.2024 समय 10.00 बने पूर्वा. से 05.00 बने अप.	समव पूर्वा	समय :11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट http://shriramhousing.in/e-auction-

Residential देखें। स्थान : जयपुर

तिथि : 15.05.2024

ह./-अधिकत प्राधिकारी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एवोनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

CIN: L67190MH1981PLC417433 पंजीकृत कार्याज्ञक जेवल s. पांजे पैलेडियन पांच कीएकी केलेल. सांताल्य(ह) पुंच - 2000त. पांचर कोण: +91 22 57526693, पोक्त: +91 22 57526603 कार्योर: पांचांतव: एक-35/3, केल-2, जोकाल जोकोनिक वोद. वह पिरली-19020 कोण: +91-11-43500700 पोक्त: +91-11-43500735 ई-मेलः secretarial@aimondz.com वेवसाइटः www.avonmorecapital.in काक कापत्र सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतदद्वारा सुवित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम कारण के सहस्या कर पहास्ताल पूर्ण कारण कारण है कि करणा आधानन है 2013 (आधानन) में सिया पह पूर्ण के सिया पहास्त की सारा 110, करणी (अस्तिक पूर्ण संगत परिषत (कहां के बाद "एक्कीए परिषत" के कम में संबंधित की सी (सुर्वित अस्तिक) के सिया है कि स्वतिक प्रकार की सी (सुर्वित अस्तिक) के सिया है कि सी की सी कि सी कि सी कि सी कि सी कि सी कि सी की सी कि सी की सी कि सी

क बाद सूर्यां के क्या ने प्रधानिक विकास ने करता हुन्यादन प्रक्रिया के जायन के कार निरुद्ध हारा सदस्यों का अनुकारन प्रधान करना चारती है। एमसीए परिपर्जों के अनुसालन में कंपनी पान सभी सदस्यों को इलीनट्रॉनिक माध्यम से कंपनी पानिकारिकारीय निर्माणिकारी प्रतिमाणी के माध्य एमीकुछ जनते हैं—मेन को माध्यम से सुपता पेन्से का कार्य में स्था है। इस की हैं हिन्से माध्यम सुकार की स्था है। इस स्थान के स्था का कार्य में साथ, 2004 को मूर्त कर रही है हिन्से भाग सुकारम, 10 मई 2014 (कर-व्योक शिक्ष) को जनस्थान पेटों की समाध्य पर सदस्यों के रिनेस्टर/नामाणी स्थामियों की चूची वें शामिल हैं।

सुपना कंपनी की वेबसाइट www.avannarecapāsiin पर प्रदर्शित की बई है। सूचना की कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी नई है और सदस्यों की सहन्यति/असहपति केवल ई-पोटिन सुक्तित के माध्यम से जी जाएगी। इस संबंध में सवस्यों को एकर्ड्सरा अधिसूचित किया जाता है कि:

ए) अधिनियम वो साथ परिता संबंधित नियमी, एमसीए परिचर्ता और सूचीयन विनियम, समय-समा पर मधासंशोधित में दिये गये कनुसार व्यवसाय का निष्यादन केंगल ई-पॉटिन प्रास करक गतपन के माध्यम से किया जाना है;

सतस्यों के बोटिंग अधिकार की गणना मुक्रवार, 10 गई. 2024, यो कि कट—ऑफ विधि है. के अनुसार की गई है और ऐसा व्यक्ति को कट—ऑफ शिधि को संदरन नहीं है वह इस सूचना को अधिक जानकारी का प्रमोजन गांव सगई;

ची) कवनी ने अपने सभी कवनमें को ई-चोटिंग सुविधा प्रधान करने से सिए बेंट्रत कियोजिटरी सर्विसेण (प्रतिमा) सिमिटेंड की सेवार जी हैं। ई-चोटिंग की प्रक्रिया पोस्टस मैसट चोटिंस के

भाग बाले नोंट्स में दी गई है, ई-नोटिंग पुरुषार, १६ माँ, २०२० को ब्रांट २.०० वर्ष (आईएसटी) आरंप होगी और सुक्रवार. १४ पूप, २०२४ को सार्व ६.०० वर्ष (काईएकटी) समाप्त होगी। उन्हें बाद सेंट्रल रिपोजिटरी सर्विसेज (इटिया) क्लिमेटेट द्वारा ई-चोटिंग मींड्यूल हटा किया जाएगा और कथिए तिथि एवं समय के बाद ई-चोटिंग की अनुमांत नहीं दी जाएगी;

ही-वार्टिम दिस्तानिर्वेशों के लिए सारस्वामा शूपाण में दिवे गये निर्देशों को भली-भाति यह लें जीए ई-वोटिम के संजय में किसी भी प्रकार की पृथ्वाफ एवं शिकायक के लिए सदस्यमा halpdesk.evoting@cdsinda.com पर अनुसीध मेलकर सीडीएसएन रेल्पदेरक पर संपर्क कर सकते हैं था 1800225533 पर कील कर सकते हैं;

 पोटिन प्रक्रिया गर निर्देश, जिसमें नौतिक प्रारूप में शेयर बारण करने वाले सदस्यों या जिन्होंने अपना ई-मेल पता धंनीत नहीं किया है, हारा अपना योट सालने की प्रक्रिया डाक्स सतपत सूचना के साम के रूप में दी गई है।

हाक मण्डव सूचना में रादर्भिए प्रामानिक दनतार्पेच नाम कोलियो नवर/हीपी आईसी और कलाइट आईडी का उल्लेख करते हुए ई-वॉटिंग के शायम से बोट प्राप्त करने की ऑकि लिथि एक secretaria@aktondz.com पर प्राप्त अनुसंध के आधार पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रानिक स्वय से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएगे। सहरकाण विक्तांने अपना है केन पता पंजीवत नहीं किया है और विकास परिणाणस्वरूप स

बाक माराप सूचना प्राप्त नहीं करते हैं. तो ऐसे सदस्यमण bestatta@gmbitcom पर है-गैल भेजकर कंपनी के आरटीए, बीटल फाइनेशियल एंड कम्प्यूटर सर्वितंत्र प्राइतेट लिमिटेड के भारत जगना है-गैल गता अस्थार्ड रूप से गंजीकृत करा सकते हैं। ई-मैल समस्तापूर्वक मंजीकरण के बाद सदस्यगण सूचना और इस काक माराय के लिए वॉटिंग करने हेतू है—बोटिंग प्रक्रिया की सीट कॉपी प्राप्त करेंगे। किसी भी पुम्रताम के लिए सदस्यगण bestelft@gmai.com या 011-25961281-283 फैनस 011-25961284 पर संपर्क कर सम्बं हैं:

usf) कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं भारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए गैरार एनपीएस एव एसोसिएट्स, कंपनी समित्र (एसीएस: एडड्ड29/सीपी नं. 22069), पेशेवर कंपनी समिव को नियुक्त किया है:

बाज महापत्र का परिणाम ही-कोटिन अवसि समान्त होने के बाद 2 दिन को मीतर घोषित किया बाएमा और इसे कंपनी की बेनसाइट www.avonmorecapitatin और सीतीएवएस की बेनखाइट वर प्रकाशित किया जाएगा और इसकी सूचना नेशनत स्टीक एक्सकेंज ऑक इंडिया तिस्पेटी एवं बीएसई लिगिटेब, जहां कंपनी के शेयर शुवीबद्ध हैं, को भी दी जाएगी।

शोर्व की आक्रमुखार कृते एवोनमोर कॅपिटन एंड मैनेजबेट सर्विसेज निर्मिटेड इरता/-(श्रीनल) कंपनी सचिव

Ashish Vya

Vidhata MetalPrivate Limite

AFA Validity: 24" October 202

Mumbei Suburban, Maharashtra- 40010

IP Reg. No.: IBBMPA-001/IP-P-01520/2018-2019/1226

Reg. Address: B-1A Vicercy Court CHS, Thakur Village, Kandivali (East



इंडियन ओवरसीज बैंक तिओं 3025-26, सेम्प्टर 22-से, चंडीब्बर-160022,

मांग सचना

प्रतिभूति दित (कार्तन) निवसवारी 2002 (निवस्थाती) के निवस 2(1) के साम प्रतित निर्देश परिसर्वितार्थी प्रतिभूतिकरण एवं पुनानिर्वण तथा प्रतिभूति दित प्रवर्तन समितियम 2002 (सरकीएसि समितियम) की धारा 19ई

 जबकि अमोहरुवासरकार्त ने सरफोहिंस अभिनियम के अध्यांत इंडियन औनस्सीज नैक के अधिकृत अभिकार के का में और निष्ण 3 के साथ परिता पाना 13(15) के कोर्गात घरता शकियों का प्रारीत करते हुए तक कीर्योंना की बतार 13(2) के कोर्गात जांग सूचना निर्मात की है, दिसकों बार्ग नीचे सुवीबद ऋणकर्तावों / कंपकनर्तावों / यसंदर्त (वहां इसमें इसके उपत्रोत "उका ऋणकर्तावों" के रूप में सर्ताकें।) को सूचन अभिन बनाहियों का नीने दिए गए किसमों के अनुसार सूनना की आधि की किया से का दिवसों के अंत प्रतिभक्तान करने को कहा थवा था।

कतः सुन्ताएं दाक प्राधिकारियाँ द्वारा मिना सुपूर्वणी वापना कर दी गई है/ऋणकर्तावाँ/कारकर्तावाँ/ गानंदर्र हता विभिन्ना कर से अभिन्नीकृति नहीं दी गई है। इसकिए कैंक अध्यक्ति साववानी बरतां दूर बांच सूचना वं इस प्रकारन को प्रकारिय कर था है। का अमेरकासरकारों ने चार अमेरियम के अनुसार कर ऋणकार्ताओं/काकमन्त्रीओ/पासंटरों के अंतिम द्वारा पार्ते के परिसरों में इन सूचनाओं को विधवाने का निर्मा लिया है। जक सूचनाओं की प्रतियां क्षयेहसासरकार्ध के पास जयतम हैं और तक ऋणकार्ध/काककार्ध/पास्टर aft à unit di facili 40 and State uz emera araban essa à Stern adpressentaci è esa ufin

अवशेक पृथ्यपृति में, जक अल्यनवांको/कंगननवांको/पारंटरें को एक बार पुनः सुनिव किया नाता है कि न इंडियन औक्स्सीज बैंक को इस सकत के प्रवरात की लिये से 80 दिनों के मीतर मार्च नीचे के आग एवं अन प्रतेखों के आर्थर निम्हानिय रिवियों से बुक्तान की रिवि रुक सविदायर दरों पर निवर कारी ज्ञाज रावा देखें के साथ जल्लेसिक राशि का चुमातन करें। आण के देव प्रतिभूगतान के लिए प्रतिभूति के क्या में, निन्तिलेख

II.	ऋणकर्वाओं / कंपककर्वाओं / मारदारों के नाम एवं पदे	18.04.2004 के सनुसार कृत बकाया देवरहशियां* (ठ. में)		मांग सूचना की तिथि
1	(1) मैसले शंकर इस्ताव आइवेट लिमिटेड, ए-डवी, पूजीएसआईटीसी, कोटवन जीवांनिक क्षेत्र, कोसी कस्त, जिस्स मधुरा (पूजी) (2) की प्रशांत चौथल निर्देशक/	के अनुसार साथ में	प्लॉट नबर 43 घर विषय जीवीमिक मूल्डट सेवटर 27-ए फरीदाबा विषय, मैसर्स गैनी एर स्वामी कुछत मोहन अस्	एवं मदन्, जं द, हरियाणाः व संपोर्टर (अपन

201, सेक्टर 16-ए, फरीदाबाद, फरीदाबाद, **पश्चिम**ः पर्तेट नवर 42, सेक्टर 27-ए, फरीदाबाद हरियाना, (4) श्रीमती बीचा अचेदा (निर्देशक/नारदर्ग), मकान नंबर 201, संकटन 16-ए परीदाबाद हरियामा. (5) मैसर्स नेनी एक्सपोर्टर (अपने स्वामी / बावनवर्ता - वी क्ञान मोह अरोता के माध्यम से), प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27ए, करीदाबाद, इरियाणा।

(3) श्री कुशल मोहन अरोडा निम्नानुसार हैं :- उदार : सडक; दक्षिण : सरकारी मृथि एवं

िरोडक / गारंटर), मकान नंबर बड़कत पताईओवर, पूर्व : प्लॉट नंबर ४४, सेवटर 22-4

टिप्पणी — "पणरोठा प्रतिभृति (पर्शाट गंबर 43 पर स्थित जीसोणिक मूखंड एवं मधन, प्रां सेक्टर 27–ए, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, थी मैसर्स गैंगी एक्सपोर्टर के गाम पर (इसर्व रवार्थित है. जा निर्माण के माध्यम से अंध्यक्ति प्रविष्ट है. माथ 2150 वर्ष , विक्रय विक्रय संज्ञा 5288 दिनावित 0508,2004 को हामार्थि संकटर 12, फरीदाबाद सारखा के साथ अनुप्रतिश मेसर्स नेनी एक्सपोर्ट्स प्राप्तेट लिमिटेड के ऋण खाता में सी बंधककृत रखा गया है. जो तिथि के अनुसार मानक और निष्पादन कर रहा है, जिसमें 15.04.2024 को क. 5,04,40,274.67 (क्यरे भांच करोड़ चार लाख चालीस हजार दो शौ चौवहतर एवं सतसठ पैसे मात्र) लागू अनुसार मार्च

ब्याज के साथ, बकावा है। 4 यदि एक ऋणकर्ता / बंगककर्ता / सरंदरराण इंडियन ओक्स्सीज बैंक को प्रपर्वुबतानुसर मुगतान करने में विकल रहते हैं, तो इतियन ओक्स्सीज बैंक, सरफरिएसि अधिनियम की पात 13(4 तथा नियमावती के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिमृत परिसंप्रतियों के विरू⊊ पूरी तरह से उक्त ऋणकर्ताओं

बंधककर्ताओं / गारंटरों के जोखिमाँ, लागतों और परिणामों पर कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त, सभी का घ्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ जनके पार उपलब्द समय के संदर्भ में अधिनियम की पाल 13 की उप-पाल (8) के प्रावधानों की ओर आकृष किया जाता है।

 आपको, सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत इंडियन ओवरसींज बैंक की पूर्व लिखित शहमति । बिना, प्रतिमृत परिशंपतियों को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अध्या अन्यया हरतांतरित करने से प्रतिबंदित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनेत्रम या निवमावली के प्रावयानों का उटलंपन करता है या चरलंघन के लिए युषोरित करता है, वह अधिनियम की घारा 29 के तहत कारावार और / या अर्थदंड के लिये उत्तरदायी होगा।

Ring 14-05-2024 स्थान : फरीदाबाद प्राधिकत अधिकारी

DEVYANI

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L15135DL1991PLC046758 Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Corporate office: Plot No-18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana Tel: +91-124-4566300, E-mail: companysecretary@dil-rjcorp.com, Website: www.dil-rjcorp.com



Net Revenue INR 10,471 YOY Growth 39%

EBITDA INR 1,739

YOY Growth 15%

Statement of consolidated financial results for the quarter and financial year ended on 31 March 2024 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (₹ in million, except per share data)



Three months ended on **Particulars** 31 March 2024 (See Note 4) 31 March 2023 (Audited) (See Note 4) Total revenue from operations 35,563.17 10,470.78 7,549.77 Profit before exceptional items and tax 43.88 1.073.71 412.32 (Loss)/profit before tax (379.86)36.76 412.32 Net (Loss)/profit for the period (489.50)598.76 (96.52)5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (337.64)312.15 598.76 1.205.86 1.205.86 1.204.96 Equity Share Capital (face value of INR.1/- each) Other equity (excluding Revaluation Reserve) 9,351.77 as shown in the Audited Balance Sheet Earnings Per Share (of INR, 1/- each) (not annualised for quarters) 0.39 (a) Basic (0.06)0.50 (b) Diluted (0.06)0.39 0.50 See accompanying notes



Notes:

 The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and year ended financial results are available on the websites of the Stock

Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.dil-rjcorp.com) 2. The Company and Camas, an affiliate of Temasek, invested AED 150.47 million (~ INR 3,407.85) and AED 145.53 million (~ INR 3,295.96) respectively, in Devyani International DMCC, Dubai ('DID') under the Inve Agreement dated 18 December 2023 in ratio of 51:49%.




On 17 January 2024, DID acquired Restaurants Development Co. Ltd. ("RD"), operating chain of 283 KFC restaurants in Thailand, by way of acquiring controlling interest in RD and its related entities for the consideration of THB 4,681.99 million (- INR 10,913.28 million) including payment of erstwhile shareholder's loan, pursuant to the Share Purchase Agreement dated 18 December 2023. Acquisition of the business is accounted for using the acquisition method of accounting as per Ind AS 103 "Business

Combinations', Further, the Company has accounted for such acquisition based on provisional fair values of assets and liabilities acquired determined by the management, resulting into recognition of goodwill of INR 3,782.43 millions. The fair valuation reports are in process and as allowed under Ind AS 103, the measurement period is open for a period of maximum of one year from the acquisition date. 3. During the quarter ended 31 March 2024 and year ended 31 March 2024, due to significant devaluation of Nigerian

currency, the Nigerian subsidiary of the Group (the Company and its subsidiaries collectively referred to as the 'Group') has recognized INR 423.74 million and INR 897.07 million devaluation impact on account of translation loss of USD denominated liabilities in Nigerian subsidiary's financial information as at 31 March 2024 and year ended 31 March 2024 respectively. Considering the significance of the amount involved, the said exchange translation loss has been presented as an ""exceptional items" in consolidated financial results of the Group. Consequently, owing to the significant currency devaluation, the investments (including loans) made by the

Company in Nigerian subsidiary through RV Enterprizes Pte. Ltd., has been impaired during the quarter ended 31 March 2024 amounting to INR 1,160.09 million and has been presented as an "exceptional items" in standalone financial results of the Company

These standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended on 31 March 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Devyani International Limited ("DIL" or "the Company") at their respective meetings held on 14 May 2024. The Statutory Auditors have audited the annual financial results. The figures for the quarter ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in recpective of full financial years and the published year to date figures up to the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review 5. The key standalone financial information of the Company is given below (₹ in million





SI.

5

Place : Gurugram

Dated: 14 May 2024









For and on behalf of Board of Directors of **Devyani International Limited** Manish Dawar

Whole time Director & CFO DIN: 00319476